



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 4, 2005/पौष 14, 1926

No. 11]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 4, 2005/PAUSA 14, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2005

सं. 16/2004—2009

का.आ. 21 (अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, विदेश व्यापार नीति 2004—2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

विदेश व्यापार नीति 2004—2009 के पैरा 3.7.6 को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :

शुल्क क्रेडिट का प्रयोग किसी निविष्ट, स्पेयर्स सहित पूंजीगत माल, कार्यालय उपस्कर, व्यावसायिक उपस्कर और कार्यालय फर्नीचर के आयात के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि वह अपने उपयोग के लिए अथवा परिशिष्ट 17ख में यथानिर्धारित सहायक विनिर्माताओं के लिए, निर्यात-आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के अन्तर्गत मुक्त रूप से आयात योग्य हो।

निम्नलिखित को छोड़कर निर्यात-आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के अध्याय 1 से 24 में सूचीबद्ध कृषि उत्पादों का आयात अनुमत होगा।

- (i) निर्यात और आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के अध्याय 7 के तहत 30 प्रतिशत से अधिक के शुल्क के साथ लहसुन, मटर और सभी अन्य सब्जियां।
- (ii) निर्यात आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के अध्याय 8 के तहत 30 प्रतिशत से अधिक के शुल्क सहित नारियल, एरोका नट, सन्तरे, नींबू, ताजे अंगूर, सेब और नाशपाती और अन्य सभी फल।
- (iii) निर्यात और आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण (लौंग को छोड़कर) के अध्याय 9 के तहत 30 प्रतिशत से अधिक के शुल्क सहित सभी मसाले।
- (iv) निर्यात और आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के अध्याय 9 के अनुसार चाय, कॉफी और काली मिर्च।
- (v) निर्यात और आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के अध्याय 12 के तहत सभी तिलहन।

इसके अलावा निर्यात और आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के अध्याय 40 के अनुसार इस स्कीम के अधीन प्राकृतिक रबर के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अध्याय 15 के तहत वर्गीकृत सभी खाद्य तेलों का आयात, स्कीम के तहत केवल एसटीसी और एम एम टी सी के जरिए अनुमत होगा। इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/94/180/010/एम 05/पी सी-4]

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2005

NO. 16/2004—2009

S.O. 21(E)—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 read with paragraph 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade Policy, 2004—2009 :—

Para 3.7.6 of the Foreign Trade Policy 2004—2009 shall be amended to read as under :

The Duty Credit may be used for import of any inputs, capital goods including spares, office equipment, professional equipment and office furniture provided the same is freely importable under ITC (HS) Classification of Export and Import items, for their own use or that of supporting manufacturers as declared in Appendix 17D.

Import of agricultural Products listed in Chapter 1 to 24 of ITC (HS) Classification of Export and Import items except the following shall be allowed.

- (i) Garlic, peas and all other Vegetables with a Duty of more than 30% under Chapter 7 of ITC (HS) Classification of Export and Import items.
- (ii) Coconut, Areca Nut, Oranges, Lemon, Fresh Grapes, Apple and Pears and all other fruits with a Duty of more than 30% under Chapter 8 of ITC (HS) Classification of Export and Import items.
- (iii) All spices with a Duty of more than 30% under Chapter 9 of ITC (HS) Classification of Export and Import items (except cloves).
- (iv) Tea, Coffee and Pepper as per Chapter 9 of ITC (HS) Classification of Export and Import items.
- (v) All Oil Seeds under Chapter 12 of ITC (HS) Classification of Export and Import items.

Further, Natural Rubber as per Chapter 40 of ITC (HS) Classification of Export and Import items shall also not be allowed for import under the Scheme.

Import of all Edible Oils classified under Chapter 15, shall be allowed under the scheme only through STC and MMTC.

This issues in Public interest.

[F. No.01/94/180/010/AM05/PC-IV]

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.